



मनोहर बलवानी  
कम्पनी सचिव  
**MANOHAR BALWANI**  
Company Secretary

पावर फाइनेंस कार्पोरेशन लिमिटेड  
**POWER FINANCE CORPORATION LTD.**  
(भारत सरकार का उपक्रम) (A Govt. of India Undertaking)

No:1:05:138:II:C  
Date: 1<sup>st</sup> July, 2019

<p><b>National Stock Exchange of India Limited, Listing Department, Exchange Plaza, Bandra – Kurla Complex, Bandra (E) MUMBAI – 400 051.</b></p> <p>नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड लिस्टिंग विभाग, एक्सचेंज प्लाजा, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पू), मुंबई-400 051</p>	<p><b>Bombay Stock Exchange Limited, Department of Corporate Services, Floor – 25, PJ Towers, Dalal Street, MUMBAI – 400 001.</b></p> <p>बंबई स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड, कॉर्पोरेट सेवाएं विभाग, मंजिल-25, पी. जे. टावर्स, दलाल स्ट्रीट, मुंबई-400 001</p>
---	---

**Sub: Announcement under Regulation 30 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015- Press Release**

Madam/Sir,

Please find attached herewith a “Press Release” dated 1<sup>st</sup> July, 2019.

This is submitted for your information and record.

Thanking you,

**Yours faithfully,  
For Power Finance Corporation Limited**

**(Manohar Balwani)  
Company Secretary  
[mb@pfcindia.com](mailto:mb@pfcindia.com)**

मे  
30



1<sup>st</sup> July, 2019

PRESS RELEASE

**PFC borrows USD 300 Million through Syndicated Loan**

Power Finance Corporation Limited (PFC) has successfully raised equivalent USD 300 Million through 3 Year Syndicated Loan from State Bank of India, Hong Kong and MUFG Bank Limited, Singapore.

This is PFC's second foreign currency borrowing in the current Quarter. Earlier, PFC raised USD 1 Billion through issuance of Reg-S bonds which was the biggest bond issuance overseas by a Govt. owned NBFC.

By concluding the current USD 300 million deal, PFC has already mobilized USD 1.3 Billion indicating investor's confidence in PFC post acquisition of Government shareholding of 52.63% in REC Limited.

(S.S. RAO)  
Addl. General Manager (PR)  
PFC

एस एस राव/S S RAO  
अ.म.प्र. (जनसंपर्क)/A.G.M. (PR)  
पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लि./PFC Ltd.  
(भारत सरकार का उपक्रम)/(A Govt. of India Undertaking)  
एक आई एस ओ 9001:2015 प्रमाणित कंपनी  
An ISO 9001:2015 Certified Company